

#### IndiaMART InterMESH Ltd.

6th floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra,
Plot No.22, Sec 135, Noida-201305, U.P.
Call Us: +91 - 9696969696
E: customercare@indiamart.com
Website: www.indiamart.com

**September 21, 2023** 

To, BSE Limited (BSE: 542726)

**National Stock Exchange of India Limited** 

(NSE: INDIAMART)

Subject: Submission of Addendum to the Post-Buyback Public Announcement of equity shares of

IndiaMART InterMESH Limited (the "Company")

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you the Company has published addendum to the post-buyback public announcement ("Addendum to the Post-Buyback Public Announcement") dated September 20, 2023, in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force ("SEBI Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback in the following newspapers on September 21, 2023:

Name of the Newspaper	Language	Editions
Business Standard	English	All Editions
Business Standard	Hindi*	All Editions

<sup>\*</sup>Hindi being the regional language wherein the registered office of the Company is located.

Please find enclosed a copy of the Addendum to the Post-Buyback Public Announcement published in the aforesaid newspapers.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For IndiaMART InterMESH Limited

(Manoj Bhargava) Group General Counsel, Company Secretary & Compliance Officer Membership No: F5164

Encl.: As above

#### TO WHOMSOEVER MAY IT CONCERN

Please be informed that effective September 20, 2023, the Noida office address of TV18 Broadcas Limited shall be as under

#### **TV18 Broadcast Limited**

Floor No. 18, Tower 'E' Skymark One, Sector 98 Plot No. H-10/A, Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh - 201301

<u>lssuedBy</u>: TV18 Broadcas imited, having its registered office at First Floor, Empire Complex, 414 Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013, Maharashtra

I Madhuvrata Nanda, S/o Ananda Murti, House No. 19, Farm House, Madhu Kanan, Gadaipu Mehrauli, South Delhi, New Delhi-110030 have changed my name from Madhuvrata Nanda to Acarya Madhuvratananda Avadhuta for all purposes That Madhuvrata Nanda and Acarva Madhuvratananda Avadhuta are the names of the one and same person.

### sidbi

#### SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA **CONDUCT STUDY ON FOSTERING GREEN INVESTMENTS OF MSME** THROUGH GREEN BONDS

Advt. No.: GEM/2023/B/3984631 DATED 20-09-2023 SIDBI invites proposals/bids for "Conduct Study on Fostering Green Investments of MSME Through Green Bonds".

For more details, interested bidders may visit the page on website (https://www.sidbi.in/en/tenders). The last date for submission of application is

The last date for submission.

October 11, 2023 till 1700 hours.

General Manager Green Climate Finance Vertical SIDBI, New Delhi

# INVITATION FOR BIDS FOR AUCTION OF ASSETS OF ST. JOHN FREIGHT SYSTEMS LIMITED Under Liquidation, Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 National Company Law Tribunal, Chennai Bench Order dated 26-11-2019

M/S. ST. JOHN FREIGHT SYSTEMS LIMITED is proposed to auction in AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS & WHATEVER IS THERE IS condition on a non-recourse basis, the below mentioned assets as these form part of excluded assets pursuant to the order of the National Company Law Tribunal, Chennai Bench IA(IBC)/1018/2022 in CP/759/(IB)/CB/2018 order dated 19-01-2023.

#### ITEM NO. 1

Land parcels and Building located at National Highway NH 45B, Meelavitan Village, Taluk and District Tuticorin – 628 008 bearing survey numbers 1129 & 1131 admassiring 8.82 acres. The reserve price for the land parcels amounts to **Rs**. 11.60.00.000

#### ITEM NO. 2

Land parcels located at Amudham Colony, Chengam Nagar and Poonkovil Nagar situated at Athipattu Village, off Ennore Port Road, Minjur Panchayat Union, Ponneri Taluk, Thiruvallur, Chennai – 600 120 admeasuring **7.22 acres**. The reserve price for the land parcels amounts to Rs.7.40.00.000.

Expression of interest on or before 09-10-2023. Interested parties may get in touch with the liquidator for further details

Date of E-Auction: 14-10-2023 For more details, contact:

R. Venkatakrishnan Liquidator - IBBI/IPA-001/IP-P00115/2017-18/10250

Tel: 044-28150540, 28150541, 28150542

Mobile: +91 98408 13918

Email: rvk@rvkassociates.com/stjohn.cirp@rvkassociates.com

#### R.P.P INFRA PROJECTS LTD. CIN: L45201TZ1995PLC006113

SF No. 454, Raghupathynaiken Palayam, Railway Colony Post, Poondurai Road, Erode - 638 002.
Tel +91 424 2284077; Fax : +91 424 2282077, E-mail:secretary@rpipl.com, www.rppipl.com

### Corrigendum to the Notice of 28th Annual General Meeting of the shareholders of R. P. P Infra Projects Limited to be held on 30th September, 2023 and Annual Report

This is in continuation to the Notice of 28th Annual General Meeting of the Compan (AGM Notice) dated 30th September, 2023, which has already been emailed to all the shareholders of the Company on 08th Sept, 2023 A Corrigendum is being issued today to inform to all the Shareholders to whom the Notice of Annual General Meeting has been sent regarding changes in the AGM Notice, Explanatory Statement and annual report by inclusion/deletion/change of certain items

Except as detailed in the attached Corrigendum, all other items of the AGM Notice along with Explanatory Statement and annual report dated 04th September 2023, shall remain unchanged.

This Corrigendum will also be available on the Website of the Company at http://www.rppipl.com Please note that on and from the date hereof, Annual report and the AGM Notice dated 04th September 2023 shall always be read collectively with this Corrigendum.

For R.P.P Infra Projects Limited

Place: Erode Date: 19.09.2023

A. Nithya Whole Time Director/CFO

#### BIL INFRATECH LIMITED - IN LIQUIDATION Regd. Off.: 37/2, Chinar Park, New Town, Rajarhat Main Road, P.O.: Hatiara, Kolkata, 700157, West Bengal

### E-Auction

Sale of Corporate Debtor as a Going Concern and Sale of certain Assets on standalone basis under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 16th October, 2023 at 11:00 AM to 02:00 PM (With unlimited extension of 10 minutes each)

#### Sale Notice

Notice is hereby given for Sale of "M/s BIL Infratech Ltd- In Liquidation (Corporate Debtor)" as a Going Concern and Sale of certain Assets on Standalone Basis forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble NCLT Kolkata Bench

under the insolvency and bankrupicy Gode, 20 to and the regulations made thereunder.							
Assets	Reserve Price (Rs. in Crores)	EMD Amount (Rs. in Crores)					
LOT-1   Sale of Corporate Debtor as a Going Concern along with all assets including Securities & Financial Assets (Excluding investment made in 9% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares and cash/ Bank balance over and above Rs 25.00 Lakh)	Rs 8.10	Rs 0.81					
LOT-2 9% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares	Rs 20.00	Rs 2.00					

The sale shall be subject to the Terms and Conditions prescribed in the "E-Auctio Process Information Document" available at https://nclt.auctiontiger.net and

ttps://bilinfratech.com/ and to the following conditions:

It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create

any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate th sale. Liquidator of M/s BIL Infratech Limited reserves the right to suspend/abandon/cancel/extend or modify process terms and/or reject or disqualify any prospective bidder/bid/offer at any stage of the e-auction process without assigning an reason and without any liability.

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER

THERE IS" and "NO RECOURSE BASIS" through approved service provider, M/s. e Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) <a href="https://nclt.auctiontiger.net">https://nclt.auctiontiger.net</a>.

. The last date for submission of Eligibility documents and Refundable Denosit as mentioned in the Process Documents is 04<sup>th</sup> October, 2023. Inspection Date - 05<sup>th</sup> October, 2023 to 11<sup>th</sup> October, 2023. The Bid Documents details and EMD payment details should reach the office of the Liquidator physically or by E-mail at the address

given below by 06:00 PM on 13" October, 2023.

Any modification in timelines and/or in the "e-auction process information document including terms and conditions will be notified in the website of the Corporate Debtor i.e

https://bilinfratech.com, For any query, contact Mr. Subodh Kumar Agrawal, mob- 9830022848, mail idogmail.com or Contact: Mr. Praveen Kumar Thevar 9722778828 - 079 681 cirp.bilinfra@gmail.com or Contact: Mr. Praveen Kumar 1 6854/55/51; Email ID: praveen.thevar@auctiontiger.net.

Subodh Kumar Agrawa

Date: 20.09.2023 Place: Kolkata

BIL Infratech Limited- In Liquidatio IBBI Regn No.: IBBI/IPA-001/IP-P00087/2017-18/10183 AFA Valid till 27/11/2023 1, Ganesh Chandra Avenue. 3rd Floor. Room No-301. Kolkata- 700013 cirp.bilinfra@gmail.com/ subodhka@gmail.com

Chennai

#### TVS MOTOR COMPANY LIMITED

TVS Regd. Office: "Chaitanya", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai – 600 006. Tel: 044 - 28332115 CIN: L35921TN1992PLC022845 Website: www.tvsmotor.com: E-mail:contactus@tvsmotor.com

#### **NOTICE PURSUANT TO SECTION 110 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND THE COMPANIES** (MANAGEMENT AND ADMINISTRATION) RULES, 2014 Dispatch of postal ballot forms

Members are hereby informed that the Company has on 18th September 2023, sent the Postal Ballot Notice to the members pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), in relation to the ordinary / special resolutions as contained in the Notice, in electronic mode to the members, whose e-mail addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the members have registered their request for a hard copy of the same. The Company has also completed the dispatch of the copies of Postal Ballot Notice along with the selfaddressed pre-paid postage envelope to those shareholders whose email addresses are not registered with the Depositories / Company, at their registered addresses.

The Company has also offered e-Voting facility for voting in accordance with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for this purpose. The Board of Directors of the Company have appointed Mr K Sriram, Practicing Company Secretary, Chennai, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-Voting in a fair and transparent manner.

Members are therefore requested to carefully read the instructions printed for voting through Postal Ballot and / or e-Voting on the Postal Ballot Form and to note the following:

Sr No	Particulars	Details
1	Statement on special businesses transacted by Postal Ballot and e-Voting	Approving the appointment of Dr. Deepali Pant Josh (DIN: 07139051) as a Non-Executive Independent Director for a term of 5 (Five) years.
		<ul> <li>b) Approving the re-appointment of Mr K N Radhakrishna (DIN: 02599393), Director &amp; Chief Executive Officer of th Company for a further period of 5 (Five) years.</li> </ul>
2	Date of completion of dispatch of Notice	20.09.2023
3	Cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or through ballot paper	14.09.2023
4	Date of commencement of voting through Postal Ballot or by electronic mode	21.09.2023 (9.00 a.m.) (IST)
5	Date of end of voting through Postal Ballot or by electronic mode. Any Postal Ballot form received from members beyond the said date and time will not be valid and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date .	20.10.2023 (5.00 p.m.) (IST)
6	Day, date and venue of declaration of results and the link of the website where such results will be displayed.	Saturday, the 21" October 2023 at the Company's registered offic at "Chaitanya" No.12, Khader Nawaz Khan Roar Nungambakkam, Chennai – 600 006 and on the Company website viz., www.tvsmotor.com
7	Website details of the Company $\it I$ Agency, where the Notice of Postal Ballot is displayed.	www.tvsmotor.com / www.evoting.nsdl.com
8	Contact details of the person responsible to address the grievances connected with Postal Ballot / e-Voting	Postal Ballot : Mr K S Srinivasan, Company Secretary, Email ID : contactus@tvsmotor.com, corpserv@integratedindia.in Telephone No : 044-28332115 e-Voting : Ms Pallavi Mhatre, Manager, NSDL Email IDs : evoting@nsdl.co.in Telephone Nos : 022-2499 4545; Toll Free no : 1800-1020-990 / 1800-224-430 Frequently Asked Questions and e-voting manual are available in the contact of the con

Members are also requested to note that if they have not received the Postal Ballot Forms, they may apply to the Company and obtain a duplicate thereof. By Order of the Board

www.evoting.nsdl.com under downloads section.

For TVS Motor Company Limited Chennai K S Srinivasar 20th September 2023 Company Secretary

### TVS HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as Sundaram-Clayton Limited)

Regd office: "Chaitanya", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai 600 006. Tel: 044-2833 2115. Website: www.tvsholdings.com Email: corpsec@sundaramclayton.com CIN: L35999TN1962PLC004792

#### **NOTICE PURSUANT TO SECTION 110 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND THE COMPANIES** (MANAGEMENT AND ADMINISTRATION) RULES, 2014

#### **Dispatch of postal ballot forms**

Members are hereby informed that the Company has, on, 18th September 2023, sent Postal Ballot Notice to the members pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), in relation to the ordinary / special resolutions as contained in the Notice, in electronic mode to the members, whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the members have registered their request for a hard copy of the same. The Company has also completed the dispatch of the copies of Postal Ballot Notice along with the self-addressed prepaid postage envelope to those shareholders whose email ids are not registered with the Depositories / Company, at their registered addresses

The Company has also offered e-Voting facility for voting in accordance with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for this purpose. The Board of Directors of the Company has appointed M/s B Chandra & Associates, Practicing Company Secretaries, Chennai, as Scrutinizers for conducting the Postal Ballot and e-Voting in a fair and transparent manner.

Members are therefore requested to carefully read the instructions printed for voting through Postal Ballot and / or e-Voting on the Postal Ballot Form and to note the following:

Sr No	Particulars	Details		
1	1 Statement on special businesses transacted by Postal Ballot and e-Voting  1. Approving the appointment of Mr Sudars 03601690) as Managing Director, for a period c 2. Approving the appointment of Mr Timm Tiller as a Non-Executive Independent Director for years.			
		<ol> <li>Approving the re-appointment of Ms Sasikala Varadacha (DIN: 07132398), as an Independent Director for a second terr of 3 (Three) years.</li> </ol>		
2 Date of completion of dispatch of Notice 20.09.2023				
3	Cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or through ballot paper			
4	Date of commencement of voting through Postal Ballot or by electronic mode	21.09.2023 (9.00 a.m.) (IST)		
5	Date of end of voting through Postal Ballot or by electronic mode. Any Postal Ballot form received from members beyond the said date and time will not be valid and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date.	20.10.2023 (5.00 p.m.) (IST)		
6	Day, date and venue of declaration of results and the link of the website where such results will be displayed.	Saturday, the 21" October 2023 at the Company's registered offic at "Chaitanya" No.12, Khader Nawaz Khan Roac Nungambakkam, Chennai – 600 006 and on the Company website viz., www.tvsholdings.com		
7	Website details of the Company $\it I$ Agency, where the Notice of Postal Ballot is displayed.	www.tvsholdings.com / www.evoting.nsdl.com		
8	Contact details of the person responsible to address the grievances connected with Postal Ballot / e-Voting	Postal Ballot : Mr R Raja Prakash, Company Secretary, Email ID : corpsec@sundaramclayton.com, corpserv@integratedindia.in		
		Telephone No : 044-28332115 e-Voting : Ms Pallavi Mhatre,		
		Manager, NSDL		
		Email IDs : evoting@nsdl.co.in		
		Telephone Nos: 022-2499 4545;		
		Toll Free no : 1800-1020-990 / 1800-224-430		
		Frequently Asked Questions and e-voting manual are available a www.evoting.nsdl.com under downloads section.		
Men	phere are also requested to note that if they have not receive	ed the Postal Ballot Forms, they may apply to the Company and ob		

a duplicate thereof.

By order of the Board For TVS Holdings Limited R Raja Prakash 20th September 2023 Company Secretary



www.centralbankofindia.co.in

Last date of submission is

06/10/2023.

Indian Overseas Bank Printing and Stationery Department Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002.

Ph: 044 - 2888 9312 PROCUREMENT OF CTS 2010 STANDARD MICR GRADE PAPER Applications are invited in prescribed format for Procurement of CTS 2010 Standard MICR grade paper, from IBA approved manufacturers.

The E-tenders can be applied through https://iobtenders.auctiontiger.net/EPROC/ ownloaded from www.iob.in. Document Fee, Non refundable Rs.1,000/- (including GST)

Last date and time for 13.10.2023 up to 15.00 hrs Bank reserves the right to change/modify the terms & conditions mentioned in this tender document, which will be displayed on Bank's Website only.

General Manager

DIAGEO

INDIA

#### **UNITED SPIRITS LIMITED**

Read. Office: 'UB Tower', # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru-560 001.

Tel: +91 80 3985 6500; Fax: +91 80 3985 6862

Email: investor.india@diageo.com Website: www.diageoindia.com Corporate Identity Number: L01551KA1999PLC024991

#### **NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES** Notice is hereby given that the Company has received requests from the following shareholders for issue of Duplicate Share

Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) reported to have been lost / misplaced. The share certificate(s) mentioned nereunder are therefore deemed to be cancelled and no transactions thereon would be recognized by the Company,

SI.	Folio No.	Name of the Chambalder		Nome of the Chambalden		Name of the Shareholder		Certificate	Distinct	tive Nos
No	FOIIO NO.	Name of the Shareholder	Shares	S Number	From	То				
21	MS071369	Chandrakant Dharamchand Ajmere	500	2756	721295311	721295810				

The public are hereby advised against dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has / have any claims(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) along with all documentary evidences with the Company at its Registered Office within 10 days of the publication of this notice, after which no claim(s) will be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificates.

For UNITED SPIRITS LIMITED

Place: Mumbai Dated: 20.09.2023

Mital Sanghvi (Company Secretary)



IndiaMART InterMESH Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1999PLC101534

Regd. Office: 1" Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subash Marg, New Delhi - 110002 Corp. Office: 6° Floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector- 135, Noida- 201 305, Uttar Pradesh, India | Tel: +91-011-45608941/+91-9696969696 Website: www.indiamart.com | E-mail: cs@indiamart.com Contact Person: Manoj Bhargava, Group General Counsel, Company Secretary and Compliance Officer

ADDENDUM TO THE POST-BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF INDIAMART INTERMESH LIMITED

This addendum to the post-buyback public announcement ("**Addendum to the Post-Buyback Public Announcement"**) is being made n accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force ("SEBI Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Addendum to the Post-Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated Nednesday, August 23, 2023, published on Thursday, August 24, 2023 ("Public Announcement"), the letter of offer dated Tuesday, August 29, 2023 ("Letter of Offer") and the post-buyback public announcement dated Thursday, September 14, 2023 published or Friday, September 15, 2023 issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and bbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Letter of Offer.

#### THE BUYBACK

- IndiaMART InterMESH Limited ("Company") had announced the offer to buyback not exceeding 12,50,000 (Twelve Lakhs Fift Thousand) fully paid-up equity shares of the Company having the face value of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) ("Equity Shares"), representing 2.04 % of the total number of Equity Shares in the total paid-up equity capital of the Company as on June 30, 2023, from all Eligible Shareholders (Equity Shareholders/Beneficial Owners as on the Record Date, being Friday, August 25 2023) through the 'tender offer' on a proportionate basis as prescribed under the SEBI Buyback Regulations, at a price of Rs. 4,000/- (Rupees Four Thousand only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate maximum amount not exceeding Rs. 500 Crores (Rupees Five Hundred Crores only) excluding any expenses incurred or to be incurred for the buyback viz. brokerage costs, fees, taxes such as buyback tax, securities transaction tax and goods and services tax (if any), stamp duty, printing and dispatch, if any, filing fees to SEBI and any Appropriate Authorities, stock exchange charges, advisor/legal fees, public announcement publication expenses and other incidental and related expenses and charges ("Transaction Costs") (such maximum amount hereinafter referred to as the "Buyback Offer Size").
- The Buyback Offer Size represents 24.12% and 24.33% of the aggregate of the Company's fully paid-up capital and free reserves as on June 30, 2023 based on last audited condensed interim standalone and consolidated financial statements of the Company for the period ended June 30, 2023, respectively. The Company had adopted the tender offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented through the
- "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange", as notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, circular no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, and circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023, including any amendments or statutory modifications for the time being in force For the purposes of the Buyback, National Stock Exchange of India Limited was the designated stock exchange.
- The Buyback Opening Date was Thursday, August 31, 2023, and the Buyback Closing Date was Wednesday, September 6, 2023 DETAILS OF THE BUYBACK
- 12,49,979 (Twelve Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred and Seventy Nine) Equity Shares were bought back pursuant to the Buyback, at a price of Rs. 4,000/- (Rupees Four Thousand only) per Equity Share. Even though 12,50,000 Equity Shares tendered under the Buyback were accepted, the Company has been informed by the Registrar vide their email dated September 14, 2023 that based on the communication dated September 13, 2023, received from NSE Clearing Limited, 21 (Twenty One) Equity Shares were not received from National Securities Depository Limited towards the pay-in for the settlement purposes Accordingly, NSE Clearing Limited has done settlement for only 12,49,979 (Twelve Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred Based on the email communication received from NSE Clearing Limited on September 18, 2023, the settlement for the remaining
- 21 (Twenty One) Equity Shares was done by NSE Clearing Limited on September 18, 2023.
- The total amount to be utilized in the Buyback was Rs. 500 Crores (Rupees Five Hundred Crores only), excluding the Transaction
- All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection has been dispatched by the Registrar, via email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their email IDs registered with the Company or the depositories) on September 12, 2023. In cases where email IDs were not registered with the Company or depositories, dispatch of physical letters of acceptance / rejection to the Eligible Shareholders by the Registrar was completed on September 13, 2023. The settlement of 12,49,979 (Twelve Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred and Seventy-Nine) Equity shares was complete

by NSE Clearing Limited on September 13, 2023 and for 21 (Twenty One) Equity Shares was completed by September 18, 2023

- NSE Clearing Limited has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India / relevant bank, due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder was transferred to the Shareholder Broker or Seller Broker for onward transfer to such Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form. In relation to the settlement of 21 (Twenty One) Equity Shares done on September 18, 2023, the 21(Twenty One) Equity Shares
- accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Account on September 18, 2023. The unaccepted Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders / Shareholders brokers / custodians and lien has been removed by NSE Clearing Limited on September 18, 2023.
- The extinguishment of 12,50,000 (Twelve Lakhs Fifty Thousand) Equity Shares accepted under the Buyback, is currently under process and shall be completed in accordance with the SEBI Buyback Regulations on or before September 25, 2023. The Company does not have shareholders holding shares in physical form.
- MANAGER TO THE BUYBACK



Nuvama Wealth Management Limited (Formerly known as Edelweiss Securities Limited) 801 - 804. Wing A. Building No 3.

Inspire BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051 Tel. No.: +91 22 4009 4400 Contact Person: Lokesh Shah Email: IndiaMart@nuvama.com Website: www.nuvama.com CIN: U67110MH1993PLC344634 SEBI Reg no: INM000013004

Validity Period: Permanent DIRECTORS' RESPONSIBILITY

In terms of Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors accepts responsibility for all the information contained in this Addendum to the Post-Buyback Public Announcement or any other information advertisement circular, brochure, publicity material which may have been used and confirms that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of IndiaMART InterMESH Limited

Sd/-Brilesh Kumar Agrawal Dinesh Chandra Agarwal Whole Time Director Managing Director & CEO DIN: 00191800 DIN: 00191760

Sd/-Manoi Bhargaya Group General Counsel. Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: F 5164

Place : New Delhi Date: September 20, 2023





: 08.09.2023

: 18.09.2023

: 16.10.2023

: 20.10.2023

#### Form No. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to section 374 (b) of the Companies Act, 2013 and rule 4 (1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

- Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereo but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Centra Registration Centre (CRC) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code- 122050 that "SAANVI FASTENERS LLP (LLPIN:AAQ-1958)" a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares. The principal objects of the company are as follows:
- Manufacturer, importer, buyer, exporter, supplier, retailer, wholesaler, and trader of a wide range of nuts, bolts, stainless steel hex nut, hex weld nuts, washers, screws
- fasteners, etc. . A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the registered office at Plot No. 187, F/F, KH No. 76 (Old Pole No. 14) Village Ranh Olla Na New Delhi, West Delhi- 110041.
- Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code- 122050, within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this 21st day of September, 2023.

Name of Applicants for and on behalf of SAANVI FASTENERS LLP

> 1. Sunil (Designated Partner) 2. Sandeep (Designated Partner 3. Anil Kumar (Designated Partner)

### xerox

#### जेरोक्स इंडिया लिमिटेड सीआईएन: U72200HR1995PLC049183

पंजीकृत कार्यालय : छठी मंजिल, ब्लॉक एक, वाटिका बिजनेस पार्क, सेक्टर-49, सोहना रोड, गुरूग्राम - 122018, हरियाणा वेबसाइट : www.xerox.com/india; ईमेल : kundan.bisht@xerox.com फोन: +91 124 4463000, फैक्स: +91 124 4463111

#### स्थगित २७वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

27वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') की सूचना (''एजीएम सूचना'') दिनांक 20 जुलाई, 2023 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की 27वीं एजीएम जो कि बुधवार, 20 सितम्बर 2023 को दोपहर 12 बजे ग्रांड बाल रूम-2, रेडिसन गुरूग्राम सोहना रोड सिटी सेंटर, मेन सोहना रोड, सेक्टर 49, गुरूग्राम 122018, हरियाणा में प्रस्तावित थी, अपेक्षित कोरम के अभाव में, अगले हफ्ते इसी दिन, इसी स्थान व समय तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त स्थगन के उपरान्त कम्पनी के सदस्यों की 27वीं एजीएम अब बुधवार 27 सितम्बर, 2023 को दोपहर 12 बजे ग्रांड बाल रूम-2, रेडिसन गुरूग्राम सोहना रोड सिटी सेंटर, मेन सोहना रोड, सेक्टर 49, गुरूग्राम-122018, हरियाणा में आयोजित होगी। जैसा कि कंपनी की 27वीं एजीएम सूचना में प्रस्तावित था, वही व्यापारिक गतिविधियां स्थगित एजीएम में भी चलेंगी।

एजीएम के प्रायोजन के लिए कंपनी के पास जमा प्रॉक्सी (यदि कोई हो) स्थगित वार्षिक आम बैठक के लिए वैध रहेगा। साथ में कंपनी द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के अंतर्गत सदस्यों द्वारा की गई सभी वोटिंग (यदि कोई हो), वो सारी स्थगित एजीएम के लिए भी स्वीकार्य होगी।

बोर्ड के आदेश से जेरोक्स इंडिया लिमिटेड हस्ता / लियो जोसेफ प्रबंध निदेशक

### की सूचना बाबत

अजय होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : C-109/3, नारायना औद्योगिक क्षेत्र, फेज -1 नई दिल्ली -110028, फोन नं. 011-41410414 CIN: U51399DL1985PLC021879, ईमेलः dineshdks1968@gmail-com

#### पिय सदस्यगण

स्थानः गरूग्राम

तिथिः 20 सितम्बर, 2023

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम, 2013") के प्रभावी प्रावधानों और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') के सामान्य परिपत्रों संख्या 14 / 2020, 17 / 2020 और 20 / 2020 क्रमशः दिनांक . 08 अप्रैल , 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020, तथा दिनांक 05 मई, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 02 / 2022 और सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्रों के रूप में संदर्भित अन्य प्रभावी परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक साधारण सभा की सूचना में निर्धारित कार्यों के सम्पादन के लिए अजय होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की अठतीसवीं (38वीं) वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम' या बैठक ) शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को अपराह 03.30 बजे (भा.मा.स. दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम आयोजित की जाएगी।

कंपनी की 38वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) की सूचना तथा वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट गत मंगलवार, 5 सितंबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों के माध्यम से एंजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता समाप्त की जा चुकी है। अन्य बातों के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2022–23, जिसमें 38वीं एजीएम की सूचना शामिल है, यहां भी उपलब्ध है:

https://linkintime.co.in/website/GoGreen/2023/AGM/Ajay\_Home\_Products\_Limited/Ajay\_Home\_Products\_Annual\_Report\_2023.pdf

डीमैटीरियलाइज्ड (डीमैट) स्वरूप में अंश रखने वाले अंशधारियों से अनुरोध है कि वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने ई—मेल पते और मोबाइल नंबरों को अपनी डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत / अद्यतन करें। भौतिक रूप में अंश रखने वाले जिन अंशधारियों ने अपने ई–मेल पते और मोबाइल नंबर कंपनी के साथ पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी —1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058, (टेलीफोन: 91—11—41410592, फैक्स .91—11—41410591, ईमेलः delhi@linkintime.co.in वेबसाइटः www.linkintime.co.in) को अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं।

#### रिमोट ई-वोटिंगः

कंपनी अधिनियम २०१३ ('अधिनियम') की धारा १०८ तथा यथा संगोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, के अनुपालन में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी 'साधारण सभाओं पर सचिवीय मानक (एसएस-2')' के अनुरूप कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के कार्यव्यापार संबंध में एजीएम के पहले रिमोट तथा एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने इंस्टा वोट (http://www.instavote.linkintime.co.in/) को नियक्त किया है। एजीएम की सूचना में रिमोट ई—वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। सदस्यों से निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया जाता है

#### अ. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अविध के दौरान उपलब्ध होगी :

रिमोट ई—वोटिंग आरम्म | 27 सितंबर, 2023 बुधवार को भारतीय समयनुसार सुबह 9 बजे से रिमोट ई—वोटिंग समाप्त | 29 सितंबर, 2023 शुक्रवार को भारतीय समयनुसार शाम 5 बजे तक तत्पश्चात सेवा प्रदाता द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्टॉनिक रूप से मतदान करने की

ब. सदस्यों के वोटिंग अधिकार शनिवार, 23 सितंबर, 2023 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी की चुकता समता अंश पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। बैठक के दौरान भी रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, बैठक के दौरान अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, एजीएम से पहले अथवा उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ लेने का अधिकारी होगा।

स. जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे फिर से मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग से जुड़े प्रश्नों / मुद्दों के संबंध में: ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रश्न / मुद्दे व सबंध में instavote@Linkintime.co.in पर उपलब्ध अक्सर पछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल को देखें या enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल भेजें या 022 -49186000 पर कॉल करें। जिन सदस्यों को बैठक से पहले / दौरान एजीएम में भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, वे enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022—49186178 पर कॉल कर सकते हैं।

\_ यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी की 38वीं एजीएम के उद्देश्य से अंशधारियों का रजिस्टर तथा कंपनी के अंग हस्तांतरण लेखे (शेयर ट्रांसफर बुक्स) रविवार, 24 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

सीानः नर्ड दिल्ली दिनांकः 21 सितंबर, 2023

अजय होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए दिनेश कुमार सिंह (निदेशक)

IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

ॐ ८६० १६० १६० १६० ८६० ८६० **पंजीकृत कार्यातम**ः पर्वीट—15, ६वीं तल, सेक्टर—44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा—122002 **शाखा कार्यालयः** प्रथम तल, आशिर्वाद प्लाजा, प्रज्ञा स्कूल की लाइन में, बीवर रोड, बिजय नगर, बिजयनगर, राजस्थान–305624

सार्वजनिक नोटिस — अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत**ा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के तहत इंडिया शेल्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रत्यामृत ऋणदाता) के पास बंबक अचल संपत्ति/ऑ की बिक्री हेतु नोटिस। एतदद्वारा सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार(ऑ), सह–कर्जदार(ऑ और जमानती(ऑ) या उनके विधिक उत्तराधिकारी/ऑ, प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में उदिलखित कर्जदारों, सह–कर्जदारों या जमानतियों से बकाया देयं की वसूली के लिए प्रत्यामूत ऋणदाता को बंधक /प्रमारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति /ओं जिनका आईएसएफसी (प्रत्यामूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गय है, की "जहाँ है जैसी है", "जो है, जहाँ है", "जो भी है" आघार पर **22.10.2023 (नीलामी तिथि)** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मृल्य और धरोहर राशि जमा नीचे उल्लिखित है

मार्वजनिक नीलमी में भागीदारी के लिए ईएमडी राशि के साथ मुहरबंद लिफाफे शाखा / कारपोरेट कार्यालयः प्रथम तल, आशिर्वाद प्लाजा, प्रज्ञा स्कूल की लाइन में, बीवर रोड, बिजर ागर, बिजयनगर, **राजस्थान–306624** में 21.10.2023 समय अप. 5 तक या इससे पूर्व आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा किए जायेंगे।

ऋण	कर्जदार(ओ) / सह–कर्जदार(ओ) /	मांग नोटिस की तारीख	कब्जे का प्रकार	आरक्षित	धरोहर राशि
खाता संख्या	जमानती(ऑ)/विधिक उत्तराधिकारी(ऑ) /विधिक प्रतिनिधि(ऑ) के नाम	राशि तारीख को	(सृजनात्मक/ भौतिक के तहत )	मूल्य (रु.)	जमा (रु.)
HI2000003136	श्री/श्रीमती रीना बानो और	28.12.2017, ₹3,99,811/-	भौतिक	₹03.87.000 /-	₹ 38,700 /-
	श्री / श्रीमती बाबुद्दीन और	दि. 31.12.2017 को आगे की ब्याज और		, , ,	
	श्री/श्रीमती गनी मोहम्मद	अन्य प्रभारों सहित			
मंपिल का विकरण⊱ मलानपुरा ग्राम पंचायत बदला तहसील हरदा जिला भीलवाडा स्थित संपत्ति प्रत्या न १,5 एरिया माप १५४७ वर्ग फट के सभी भाग व खंड। सीमाएँ−					

पि**त्तं को विवरणः**— सुन्तानपुरा ग्राम पंचायत, बदला तहसाल हुरदा ।जला मालयाञ्च ।त्र्यत र्व–सामूहिक रोड, पश्चिम–स्वयं का वाड़ा, उत्तर–नन्नू जी दोई, दक्षिण– नाथू खान मंसूरी LA30CLLONS0000 श्री /श्रीमती मीनाक्षी शर्मा और 13.02.2023, ₹ 10,06,017.56 / – दि. 11.02.2023 को आगे की ब्याज और ₹08,90,000/-₹89 000 /-05004307 &

**प्रतित का विवरण:-** गाँव बदली. जीपी बदली पीएस भिनय, जिला अजमेर, राजस्थान-305624 स्थित संपत्ति पटटा नं. 05, एरिया माप 1030.41 वर्ग फुट के सभी भाग व खंड गएँ:– पूर्व–धिसु बैरवा, पश्चिम–गोपाल रेगर, उत्तर–सामूहिक रोड, दक्षिण– पडत सरकारी

अन्य प्रभारों सहित

श्रीमती झूमी देवी और श्री भक्ति सिंह रावत और श्री भवानी सिंह दि. 01.04.2021 को आगे की ब्याज और अन्य प्रभारों सहित गोवलिया जीपी क्रांति, पीएस भिनय जिला अजमेर, राजस माएँ:– पूर्व−हरिचंद्र का नोहरा, पश्चिम−नीर सिंह का मकान, उत्तर–चंडमल∕बुद्धा रावत, दक्षिण– सामृहिक रोड

₹04.64.300 /-

₹46,430 /-

निबंधन व शर्तैः 

हरियाणा-122002, शाखा कार्यालयः प्रथम तल, आशिर्वाद प्लाजा, प्रज्ञा स्कूल की लाइन में, बीवर रोड, बिजय नगर, बिजयनगर, राजस्थान-305624 में किसी भी कार्य दिवस व समय पर्वा. 10.00 से अप. 5.00 के बीच उपलब्ध होंगे।

CLA100004105

राज पूजा. 10.00 राजा. 2007 कार्ज उपस्था कार्ज अचल संपत्ति आरबित मूल्ज में कम पर बिकी नहीं की जायेगी। उपर्युक्त संपत्ति/ओं की खरीद के लिए सभी निविदा/बोली के साथ उपरोक्तानुसार "इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में घरोहर राशि जमा करनी होगी नीलामी के बाद असफल निविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी।

उच्चतम बोलीकार को सफल निविदाकार घोषित किया जायेगा बसर्ते वह बोली करने के लिए विधिक रूप से अई हो और साथ ही बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो उच्चतम बोली की स्वीकृति/अस्वीकृति प्राधिकृत अधिकारी के विवेक से होगा जबकि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। संभावी निविदाकार पूर्व समयादेश लेकर संपत्ति का 20.10.2023 समय पूर्वा. 11.00 से अप. 5.00 के बीच निरीक्षण कर सकते हैं।

समावा नागवराकार पूर्व समयावश तकर संपादन का 20.10.2023 समय पूर्वा. 11.00 से अप. 5.00 के बांच ानरक्षण कर सकत है स सफल निविदाकार घोषित होने वाले निविदाकार को घोषणा के दूरत बाद 24 घंटने के अंदर क्या चनारबी? उच्चतम बोली की राशि की 25% राशि जिसमें इंएमडी राशि शामित है, प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी और इस प्रकार जमा में किसी चूक पर संपत्ति नयी नीलामी / निजी ट्रीटी हारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रारंगिक मुगतान होने की अवस्था में क्रय धनराशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारिख से केवल 15 दिन के अंदर खरीदार हार प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी अवया यदि 15वें दिन रविवार या अच्या कोई अवकाश होता है तो देन के बाद प्रधान कार्य दिवस में जमा करनी होगी। उपरोक्त अवधि के अंदर किसी मुगतान में चूक की अवस्था में संपत्ति नयी नीलामी/ निजी ट्रीटी हारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। इंएमडी सहित जमा राशि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त हो जायेगी और चककर्ता खरीदार संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा।

उपर्युक्त विक्री आईएसएफसी के अंतिम अनुमोदन के तहत होगी। इच्छुक पार्टियों से संपत्ति पर साविधिक और अन्य देय जैसे बिक्री/संपत्ति कर, बिजली बकाया, और सोसाइटी बकाया संबंधित विमागों/कार्यालयों से जांच/पुष्टि करने का अनुरोध है। संपत्ति पर किसी देय के मुगतान का कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। उच्चतम ग्रोबित बोली राशि का 1% टीडीएस, यदि हो, उच्चतम बोलीकार को भुगतान करना होगा। उच्चतम बोलीकार को भुगतान कंपनी के पैन नंबर में करना होगा और चालान

 विक्री पूरी तरह से इस विज्ञापन और निर्धारित निविदा प्रपत्र में अंतर्निहित निबंधन व शर्तों के तहत होगी। 12) सफल निविदाकार/खरीदार को सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, और बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत कराने के लिए विधि अनुसार यथालाग्र प्रासांगिक व्यय स्वयं वहन करने

) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिए बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा निविदा को रोकने/स्थगित/निरस्त करने और बिना किसी पूर्व सूचना के इस बिक्री व निबंधन व शर्तों को भी संशोधित करने का अधिकार होगा।

4) इच्छुक निविदाकार कार्यालयीन अविध (पूर्वा. 10.00 से अप. 6.00 तक) श्री दीपक सुथार को मोबाइल नं.: 9649990190 पर संपर्क कर सकते हैं। कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिनी बिक्री नोटिस

उपरोक्त कर्जदारों / बंधककर्ताओं / जमानतियों को एतदद्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस मगतान करने के लिए सथित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, की रोक्त कर्जदारों / बंधककताआ / जनामाजन । तान करने के लिए सूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी का जायगा आर ज **श्री दीपक सुधार, मो. 9849990190** (प्राषिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेर दिनांकः 21.09.2023, स्थानः राजस्थान

## Home Loans इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय : प्लॉट-15. 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा-122002,शाखा कार्यालय: कोटा: इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोरेंशन लिमिटेड, पहली मंजिल, 10 डी, पंजवानी कॉम्प्लेक्स सामने मल्टीपर्पज स्कूल, गुमानपुरा, कोटा-304007 राजस्थान, झालावाडु: खसरा नंबर 2016, निर्भय सिंह सर्कल, एचडीएफसी बैंक के पास, झालावाड़, राजस्थान - 326001, भीलवाड़ाः श्री सुदर्शन, एक्सटेंशन-116, पहली मंजिल, गायत्री आश्रम के पास, अजमेर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001, चित्तौड़गढ़: प्लॉट नंबर 5, सी-5, पहली मंजिल, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़ - 312001

#### सार्वजनिक सूचना-अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी

[ **प्रतिभति हित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 के नियम 9( 1 ) के तहत ।** वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिय िकार कि अर्था निष्म ने अपने कि प्रतिकृति के स्वित्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि अर्था कि अर अंस्टर फाइनेंस कॉर्पिशन (आईएसएफसी) (प्रतिभुत लेनदार) के पास गिर्यो अवल संपत्ति की कि लिए सुचना सामान्य रूप से जनता को और शियोष कर से कार्जदार (री) और जमानती(यों) या उनके कानुनी उत्तराधिकारियों,प्रतिनिधियों को सुचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास गिरयोप्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत लेनदार) द्वारा ले लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा जमानतियों से बकाया देयताओं की वसूली के लिए ''<mark>जहां है जैसे है'', ''ज</mark> है **यही है'' तथा ''जो कछ भी है वहीं है'**' आधार पर 04.09.2023 (नीलामी की तारीख़) को बिक्री की जायेगी। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए इंप्मडी राशि वाला महरबंद लफाफा आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास **शाखा/कॉपोरेंट कार्यालयः**- प्लॉट-15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुङ्गांव, हरियाणा-122002, **शाखा** कार्यालयः कोटाः इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोरेंशन लिमिटेड, पहली मंजिल, 10 डी, पंजवानी कॉम्प्लेक्स सामने मल्टीपर्पज स्कूल, गुमानपुरा, कोटा-304007 राजस्थान, झालावाडः खसरा नंबर 2016, निर्भय सिंह सर्कल, एचडीएफसी बैंक के पास, झालावाड, राजस्थान – 326001, **भीलवाडाः** श्री सुदर्शन, एक्सटेंशन-116, पहली मंजिल, गायत्री आश्रम के पास, अजमेर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001, चित्तौड़गढ़: प्लॉट नंबर 5, सी-5, पहली मंजिल, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़ - 312001 पर 26 अक्टूबर, 2023 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा।

Type of

		Co- Borrower(s)/	Date of Definition House		Reserve	Earnest	
	Loan Account No.		Amount as on date	(Under Constructive/ Physical)	Price	Money	
	AP-0733432/ CHL100003787	श्रीमती जनता पत्नी श्री प्रभु लाल मेहरात	09-अगस्त-21 रु. 3,78,920.76/- ( रुपये तीन लाख अठहतर हजार नौ सौ बीस एवं छिहतर पैसे मात्र) तिथि 31-अगस्त-2021 तक तथा 01 सितम्बर, 2021 से पूर्ण भुगतान तक भावी प्रयोज्य ब्याज	भौतिक	रु. 3,52,000/- (रुपये तीन लाख बावन हजार मात्र)	रु. 35,200/- (रुपये पैंतीस हजार दो सौ मात्र)	
संपत्ति का विवरण:- संपत्ति पदा संख्या 15. VIII - रामपरिया. ग्राम पंचायत चमन परा. तहसील बनेडा. जिला-भीलवाडा. राजस्थान - 311001 का समस्त भाग. क्षेत्रफल 187.7					गग, क्षेत्रफल 187.77 वर्ग		

गज, इस प्रकार परिबद्धः- पूर्व- श्री मदन मेहरात की संपत्ति. पश्चिम- सडक. उत्तर- सडक. दक्षिण- श्रीमती सकीना मेहरात की संपत्ति

\$(1 X-11)( 11(-	d And inches 2 - An act and an analytical days, each apply and a part and an analytical and an an analytical and an analytical analytical and an analytical analytical and an analytical analy								
-0386393/ 900002450		हेमलता पत्नी रतन लाल	20-सितम्बर-19 रु. 2,95,134/- (रुपये दो लाख पिचानवे हजार एक सौ चौतीस मात्र) तिथि 30 सितम्बर, 2019 तक तथा 01 अक्टूबर, 2019 से पूर्ण भुगतान तक भावी प्रयोज्य व्याज	भौतिक	रु. 2,66,000/- (रुपये दो लाख छियासठ हजार मात्र)	रु. 26,600/- (रुपये छब्बीस हजार छः सौ मात्र)			

संपत्ति का विवरण:- संपत्ति प्लॉट वार्ड नंबर- ०४ का समस्त भाग, ग्राम रामदेव जी का चंदीरया, नगर प्रसाद चित्तौड़गढ़, तहसील और जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित, माप ३४१ वर्ग फीट. इस प्रकार परिबद्ध: - पर्व- सड़क. पश्चिम- श्रीमती पारसी देवी. उत्तर- श्री शंकर सिंह. दक्षिण- श्री तस्त सिंह

AP-0496697/ HLF700000226	पत्नी श्री जगदीश चन्द	मात्र ) तिथि 20 जुलाई, 2022 तक तथा 20 जुलाई,	 रु. 3,14,000/- (रुपये तीन लाख चौदह	रु. 31,400/- (रुपये इकतीस हजार चार सौ मात्र)
0		2022 से पूर्ण भुगतान तक भावी प्रयोज्य ब्याज	हजार मात्र)	

**प्पत्ति का विवरण**ः सम्पत्ति मकान/प्लॉट/पट्टा सं. जेडब्ल्यूआर13601 तथा ग्राम पंचायत समराई, पंचायत समिति एवं तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ 326501, राजस्थान का

समस्त भाग, माप 37*32.75=1211.75 वर्ग फाट, सामाए : पूर्व : अपना खुला भूम, पश्चिम, कामन राड, उत्तर : धुलालाल का बाड़ा (खुला भूम), दक्षिण : रामश्वर का मकान						
AP-0299437/ HI1900001914	श्रीमती मनोहर बाई पत्नी श्री मोती लाल	20-जून-22 रु. 2,56,151.44/- (रुपये दो लाख छप्पन हजार एक सौ इक्यावन एवं चौवालीस पैसे मात्र) तिथि 16 जून, 2022 तक तथा 17 जून,	भौतिक	रु. 2,49,000/- (रुपये दो लाख उनचास हजार	रु. 24,900/- (रुपये चौबीस हजार नौ सौ मात्र)	

2022 से पूर्ण भुगतान तक भावी प्रयोज्य ब्याज मात्र) संपत्ति का विवरण : संपत्ति मकान/पट्टा संख्या- जेडब्ल्यूआर14571 का समस्त भाग, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रलायती, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 20\*19-380 वर्ग फीट, सीमा इस प्रकार है: पूर्व- भागवत सिंह/वजरंग सिंह का घर, पश्चिम- मांगी लाल/देवीलाल का घर, उत्तर- खुला क्षेत्र, दक्षिण- देव करण/ धन्नालाल का घर।

AP-0325553/ I2000003140	श्रीमती हंस कंवर राठौर पत्नी श्री डुंगरा सिंह	16-सितम्बर-22 रु. 3,16,381.77 /- (रुपये तीन लाख सोलह हजार तीन सौ इक्यासी एवं सतहतर पैसे मात्र) तिथि 15 सितम्बर, 2022 तक तथा 16 सितम्बर, 2021 से पूर्ण भुगतान तक भावी प्रयोज्य ब्याज	-III(IGI)	रु. 6,05,000/- (रुपये छ: लाख पांच हजार मात्र)	रु. 60,500/- (रुपये साठ हजार पांच सौ मात्र)
<del></del>			A		2 H from 100 40

**संपति का विवरणः** संपत्ति मकान पट्टा संख्या जेडब्ल्युआर 05712 का समस्त भाग, खसरा नंबर 308, सिंघानिया, तहसील झालरापाटन जिला-झालावाड़− 326023 में स्थित, माप 620.19 वर्ग फीट, सीमा इस प्रकार है:− पूर्व− रास्ता/गली, पश्चिम− मुख्य दरवाजा रास्ता और तंवर सिंह का घर, जतर− जोध सिंह का घर, गोकुल सिंह का घर और अपनी जमीन, दक्षिण− रास्ता और सड़क चौपदार बस्ती के बाद गली

	AP-10032522/ HL32CHL ONS0 00005012252	श्रीमती हेमलता बाई पत्नी श्री मनोज कुमार	19-मई-23 रु. 5,77/421.36/- (रुपये पांच लाख सतहतर हजार चार सौ इक्कीस एवं छत्तीस पैसे मात्र) तिथि 10 मई, 2023 तक तथा 11 मई, 2021 से पूर्ण भुगतान तक भावी प्रयोज्य ब्याज	भौतिक	रु. 5,35,000 /- (रुपये पांच लाख पैंतीस हजार मात्र)	रु. 53,500/- (रुपये तिरेपन हजार पांच सौ मात्र)
संपत्ति का विवरणः संपत्ति मकान नंबर- 113-ए का समस्त भाग, गणेश विहार कॉलोनी, खसरा नंबर 175, अकलेरा, जिला झालावाड़, राजस्थान, 500 वर्ग फीट का क्षेत्रफल। सीमा इस प्रकार है						

पर्व- प्लॉट नंबर 114, पश्चिम- प्लॉट नंबर 112 और 113, उत्तर- प्लॉट नंबर 23, दक्षिण- सडक AP-0257460 / श्रीमती धन कंवर पत्नी 13-अप्रैल-21 रु. 2.63/443.23/- (रुपये दो लाख रु. 2,21,000/-五、22.100/-रुपये दो लाख (रुपये बाईस हजा श्री कामराज 03346T0 इक्कीस हजार तिथि 30 अप्रैल. 2021 तक तथा 01 मई. 2021 से एक सौ मात्र)

पूर्ण भुगतान तक भावी प्रयोज्य ब्याज मात्र ) संपत्ति का विवरण:- संपत्ति मकान नंबर-डी-383 का सम्पूर्ण भाग, प्रेम नगर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना, तहसील लाड पुरा, जिला कोटा, राजस्थान में स्थित, सड़क, पश्चिम- मकान नं. डी-382, उत्तर- सड़क, दक्षिण- मकान नं. डी-384 न 325 वर्ग फीट, इर 13-अक्टूबर-22 रु. 16,21,730.07/- (रुपये सोलह लाख इक्कीस हजार सात सौ तीस एवं सात पैसे मात्र) श्रीमती गोकुल बाई (रुपये उन्नीस LA32CLL (रुपये एक लाख

संपत्ति का विवरण:- संपत्ति पट्टा नंबर 2005, मिसल नंबर- 684, खसरा नंबर 862, ग्राम मंडाना, ग्राम पंचायत मंडाना, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा 325003, राजस्थान, क्षेत्रफल

पत्नी श्री कस्तूर चन्द तिथि 13 अक्टूबर, 2022 तक तथा 14 अक्टूबर, लाख चौटह इक्यानबे हजार 0005043116 2022 से पूर्ण भुगतान तक भावी प्रयोज्य ब्याज हजार मात्र) मात्र ) 1700 वर्ग फीट, इस प्रकार परिबद्ध:-पर्व-श्री मथरा लाल, पश्चिम- श्री प्रमोद का मकान, उत्तर : सडक, दक्षिण : श्री दया चंद का मकान

) अचल संपत्ति आरक्षित मृत्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। ८) अपन राभाव आस्त्रता पूरण समा पा नाम आपता। 3) अपनुंक संविध्यों की ख़तिर के लिए जमा की गई खोलियोनियिदाओं के साथ ऊपर उल्लिखत धरोहर राशि संलग को जाएगी। ईएमडी राशि दिल्ली में देग 'इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉबोरेंशन लिमिटेड' के पक्ष में होगी। नीलामी के बाद सफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। ) उच्चतम बोली लगाने वाले को हमेशा सफल बोलीदाता योषित किया जाएगा, बशर्त कि यह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हो और बशर्त कि बोली की राशि आरबित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित कीमत इतनी अपर्याह

प्रतीत हो कि ऐसा करने की सलाह न दी जा सके तो उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार करना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर होगा। 5) संभावित बोलीदाता 25 **अक्टूबर, 2023 को प्रात**: 11.00 **बजे से सार्च 5.00 बजे** के बीच पूर्व अनुमति लेकर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

5) रासल बोलोवाता के रूप में भीवित वार्कि, भीषणा के दुरंत बाद, प्रेंसकी रावित खरीद रावित उच्चतनम बोली की रावि का 25% 24 मेंटे के मीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करेगा और इस तरह की जमा राशि में चूक होने पर संपंचि को दुरंत निजी सिंध द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। ात का पुरत । नजा साथ क्षर नह नातामाशक्का क लाए रखा जाएगा। उपरोक्त के अनुसार प्रारंभिक जमा किए जाने की स्थित में, देय क्रेता थन की शेष राशि का भुगतान क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले सिवाय इसके कि ऐसे दिन या यदि डर्चे दिन रिम्बार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर किया जाएगा। १) ऊपर वर्षित अवधि के भीतर किसी भी भुगतान में चुक होने की स्थिति में, संपत्ति को निजी संधि हारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। ईएमडी साहित जमा राशि इंडिया शेल्टर फढ़नेंस कॉपोरेंशन लिमिटेड द्वारा जरूत कर ली जाएगी

8) कर्पर वागत अवाध के आता किसी मा पुगता में मुक्त होने का स्थान में, स्वाप का निजा साथ होत में, नातमाणाव्यक के लिए रह्या वाया। इएमडा सकत जमा यांचा इत्या साहय सर्टर फाइन्स कम्परान लिमटड इंग्लंग कर ला वाया।
9) उपरोक्त किकी आईएसएफसी के ऑतम अनुमोदन के अधीन होती, इच्छूक पार्टियों से अनुरोध है कि ये संबंधित विभागी कार्यालयों से वैधानिक और अन्य बकाया जैसे विकासपंचित कर, बिजली बकाया, और सोसाइटी का बकाया को पुष्टिपृष्टि करें। इक्ट्रम पार्टियों से एक्ट्रम पार्टियों से विभाग पिता पिता प्रति में पिता पिता के अपना के कोई विमासती निति से ती होती ।
5) उपरोक्त किकी उस किसी में दे राशि के पुगतान को कोई विमासती निति से लिया प्रति में से उपरोक्त के अपना के अति के अतिरिक्त देय होगा।
11) यह विकाद स्वापन और निर्धारित निविदा प्रति में सामित नियमों और सती के अविरिक्त देय होगा।
11) यह विकाद स्वापन और निर्धारित निविदा प्रति में सामित नियमों और सती के अविरिक्त देय होगा।

1)) यह किको इस विवासन और निर्धारित निर्धिय प्रारंत में मामिल निर्पत्ती के अधीन है। 12) सफल बोलीराताक्षेत्रा करून के अनुसार पंजीकृत बिको प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सभी स्टाप्स युल्क, 'जीकरण युल्क और आकस्मिक खर्ची को यहन करना होगा। 13) प्रापिकृत अधिकारी को निला कोई काम्य बताए जीली को प्रतीक्तर या अस्वीकार करने वा स्पणितस्पणितनिर्धिय को रह करने और निला किसी पूर्व सुच्चा के इस किकों के किसी भी निर्पत्त और सती को संसोधित करने का पूर्ण अधिकार है। 14. इच्छुक बोलीयाता श्री नरेन्द्रसिंह मोबाइल जंबर +91 -946/165805, श्री प्रतीण कुमार, मोबाइल जंबर +91 -982210801 एवं श्री नवीदित त्रियादी मोबाइल जंबर +91 -98649 से कार्यालय समय के दौरान

(सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक) से सम्पर्क कर सकते हैं। कर्जदार⁄जमानतदार⁄बंधककर्ता को 30 दिनों की बिक्री सूचना

उपर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/वमानतदारों को धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतन ब्याज और खर्च के साथ नीलामी की तारीख से पहले करने के लिए सूचना दी जाती है, विसमें विफल रहने पर संपंत्र को नीला को जाएगी और बकाया राशि, विदे कोई हो, आपसे ब्याज और लागत सर्वित वसूच की जाएगी।

दिनांकः २१.०९.२०२३, स्थानः राजस्थान

कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोर्रेशन लिमिटेड

कार्यालय वसुली अधिकारी- ।। ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-।।, किसान भवन के सामने, ्र लालकोठी शोपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान) (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

State Bank of India

निरीक्षण की तिथि

नोटिस न्यायालय सचना पटट

नोटिस मौके पर (बैंक दारा)

फार्म संख्या 13 (आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

आगामी तिथि 30.10.2023 वसुली प्रमाण पत्र संख्या : 184/ 2022 प्रकरण का उनवानः

> Jalu Ram बनाम

विक्रय की उद्घोषणा यहकि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जवपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 184/2022 जो कि मूल आवेदन संख्या 244/2021 में दिनांक 14.02.2022 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध रूपये क्रमशः 37,72,138.14 की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय ्वं खर्चों सहित वसूल किये जाने योग्य है। तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 17.05.2022 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चों राशि 41,68,977.24 रूपये एवं विष्य का ब्याज बकाया होते है। तथा यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूची में वर्णित बंधकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनसार आज दिनांक तक ब्याज वाद व्यय खर्चों एवं भविष्य का ब्याज बकाया है।

एतद्वारा यह सुचित किया जाता है कि किसी स्थान आदेश की अनुपस्थित में सन्दर्भित सम्पत्ति का नीलामी अधिवक्ता श्री एस.के. शर्मा मो. 9314093943 द्वारा म्पत्ति स्थल पर दिनांक 20.10.2023 प्रात 11:00 बजे की जावेगा। यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये है, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है जैसी स्थिति में है" के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति वं किसी एक भाग के विक्रय से वसुली राशि सन्तष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने रं

पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि वे ाए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा विक्रय हेत जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेत आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय है रम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा। विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखि

धनिरिक्त प्रार्तों के अध्ययीन होगा:-(1) संलग्न सूची में दिये गये विवरण अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता उद्योषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूव के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा। (2) सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य राशि रू. 55.21 लाख निर्धारित है। जिससे कम मूल्य में संपत्तियों का विक्रय नही किया जावेगा। (3 म्पत्ति की बोली बढ़ाए जाने की राशि का गुणांक मोके पर नीलामीकर्ता अधिवक्ता के द्वारा अपने विवेक से तय किया जाऐगा तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता व वषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनःनीलामी के लिए रख दिया जायेगा। (4) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि धरोहर जमा करानी होगी ज के वसुली अधिकारी, ऋण वसुली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी। इच्छुक बोलीदाता को बोली से पूर्व पेनकार्ड की पत प्रतिलिपि, पते का प्रमाण पत्र तथा प्राधिकार पत्र यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे है नीलामीकर्ता अधिवक्ता को प्रस्तुत हरने होंगे। (5) किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गर लि आरक्षित मुल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मुल्य स्पष्टत: इत-पर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित

रचात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में सभी अधिकार जब्त हो जायेंगे। सफल बोलीदाता के ाथम 1000/- रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेज फीस का भुगतान करना होगा। (9) इच्छुक बोलीदाता को संपत्ति क निरीक्षण दिनांक 16.10.2023 को प्रमाण पत्र धारी बैंक के सम्बन्धित शाखा प्रबंधक के द्वारा करवाया जा सकेगा। (10) धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताअ हो उसी दिन नीलामीकर्ता अधिवक्ता द्वारा नीलामी के तुरन्त बाद कर दिया जावेगा। सम्पत्ति का विवरण विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहमालिक का सम्पन्ति या उसके किसी भी प्रकार किसी भाग पर समेकित के भार का का की नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण आरक्षित आर्राधित राजस्व जिसका विवरण जिसके आया है एवं अन्य कोई जात जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य जाजा हु ... त्रिष्ठाहित्यों जो कि इसके म लिए सम्पत्ति मूल्य राशि मूल्यांकन

करने का अधिकार प्राप्त होगा। (7) सफल बोलीदाता को विक्रय सम्पुष्टि के उपरान्त प्रथम 1000/- रूपये पर 2 प्रतिशत एवँ उसके पश्चात शेष राशि पर 1 प्रतिशत की द से पोडण्डेय फीस का भुगतान करना होगा। (8) ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने वे

एवं प्रकृति प्रभाव रखता है। व्यक्ति से सह-मालिक है। लाख में किया गया है उत्तरदायी है 4 1 3 Agriculture land under old A/c No. 95, and New A/c No. 110 vide khasra No. 536, 544, 545, 651, 652, Village Akasar, Tehsil Kolayat, जात नहीं जात नहीं जात नहीं District-Bikaner, Rajasthan total admeasuring 30,78 Hectare सील मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 08.09.2023 को जारी।

वसली अधिकारी-।। ऋण वसली अधिकरण, जयप



### IndiaMART InterMESH Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1999PLC101534
Regd. Office: 1" Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subash Marg, New Delhi - 110002
Corp. Office: 6" Floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector- 135, Noida- 201 305,
Uttar Pradesh, India | Tel: +91-011-45608941|+91-9696969696

Ottar Pracesti, nina | 16t. 1910-19400054 http://documents.org/ Website: www.indiamart.com | E-mail: cs@indiamart.com Contact Person: Manoj Bhargava, Group General Counsel, Company Secretary and Compliance Officer

ADDENDUM TO THE POST-BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF INDIAMART INTERMESH LIMITED This addendum to the post-buyback public announcement ("Addendum to the Post-Buyback Public Announcement") is being made

n accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force ("SEBI Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Addendum to the Post-Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated Wednesday, August 23, 2023, published on Thursday, August 24, 2023 ("Public Announcement"), the letter of offer dated Tuesday, August 29, 2023 ("Letter of Offer") and the post-buyback public announcement dated Thursday, September 14, 2023 published on Friday, September 15, 2023 issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Letter of Offer.

### THE BUYBACK

- IndiaMART InterMESH Limited ("Company") had announced the offer to buyback not exceeding 12,50,000 (Twelve Lakhs Fifty Thousand) fully paid-up equity shares of the Company having the face value of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) ("Equity Shares"), representing 2.04 % of the total number of Equity Shares in the total paid-up equity capital of the Company as on June 30, 2023, from all Eligible Shareholders (Equity Shareholders/Beneficial Owners as on the Record Date, being Friday, August 25 2023) through the 'tender offer' on a proportionate basis as prescribed under the SEBI Buyback Regulations, at a price of Rs. 4,000/- (Rupees Four Thousand only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate maximum amount not exceeding Rs. 500 Crores (Rupees Five Hundred Crores only) excluding any expenses incurred or to be incurred for the buyback viz. brokerage costs, fees, taxes such as buyback tax, securities transaction tax and goods and services tax (if any), stamp duty, printing and dispatch, if any, filing fees to SEBI and any Appropriate Authorities, stock exchange charges, advisor/legal fees, public announcement publication expenses and other incidental and related expenses and charges ("Transaction Costs") (such maximum amount hereinafter referred to as the "Buyback Offer Size").
  - The Buyback Offer Size represents 24.12% and 24.33% of the aggregate of the Company's fully paid-up capital and free reserves as on June 30, 2023 based on last audited condensed interim standalone and consolidated financial statements of the Company for the period ended June 30, 2023, respectively.
- The Company had adopted the tender offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented through the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange", as notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, circular no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, and circular no SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023, including any amendments or statutory modifications for the time being in force For the purposes of the Buyback, National Stock Exchange of India Limited was the designated stock exchange.
- The Buyback Opening Date was Thursday, August 31, 2023, and the Buyback Closing Date was Wednesday, September 6, 2023 DETAILS OF THE BUYBACK

- 12.49.979 (Twelve Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred and Seventy Nine) Equity Shares were bought back pursuant to the Buyback, at a price of Rs. 4,000/- (Rupees Four Thousand only) per Equity Share. Even though 12,50,000 Equity Shares tendered under the Buyback were accepted, the Company has been informed by the Registrar vide their email dated September 14, 2023 that based on the communication dated September 13, 2023, received from NSE Clearing Limited, 21 (Twenty One) Equity Shares were not received from National Securities Depository Limited towards the pay-in for the settlement purposes. Accordingly, NSE Clearing Limited has done settlement for only 12,49,979 (Twelve Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred and Seventy Nine) Equity Shares.
- Based on the email communication received from NSE Clearing Limited on September 18, 2023, the settlement for the remaining 21 (Twenty One) Equity Shares was done by NSE Clearing Limited on September 18, 2023. The total amount to be utilized in the Buyback was Rs. 500 Crores (Rupees Five Hundred Crores only), excluding the Transaction
- All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buyback Regulations and the Letter of
- Offer. The communication of acceptance / rejection has been dispatched by the Registrar, via email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their email IDs registered with the Company or the depositories) on September 12, 2023. In cases where email IDs were not registered with the Company or depositories, dispatch of physical letters of acceptance / rejection to the Eligible Shareholders by the Registrar was completed on September 13, 2023. The settlement of 12,49,979 (Twelve Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred and Seventy-Nine) Equity shares was completed
- by NSE Clearing Limited on September 13, 2023 and for 21 (Twenty One) Equity Shares was completed by September 18, 2023. NSE Clearing Limited has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India / relevant bank, due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder was transferred to the Shareholder Broker or Seller Broker for onward transfer to such Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form.
- In relation to the settlement of 21 (Twenty One) Equity Shares done on September 18, 2023, the 21(Twenty One) Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Account on September 18, 2023. The unaccepted Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders / Shareholders brokers / custodians and lien has been removed by NSE Clearing Limited on September 18, 2023.
- The extinguishment of 12,50,000 (Twelve Lakhs Fifty Thousand) Equity Shares accepted under the Buyback, is currently under process and shall be completed in accordance with the SEBI Buyback Regulations on or before September 25, 2023. The Company does not have shareholders holding shares in physical form
- MANAGER TO THE BUYBACK



Nuvama Wealth Management Limited (Formerly known as Edelweiss Securities Limited) 801 - 804, Wing A, Building No 3,

Inspire BKC, G Block. Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051 Tel. No.: +91 22 4009 4400 Contact Person: Lokesh Shah Email: IndiaMart@nuvama.com Website: www.nuvama.com

**SEBI Reg no:** INM000013004 Validity Period: Permanent DIRECTORS' RESPONSIBILITY

> Sd/-Brijesh Kumar Agrawal

Whole Time Director

DIN: 00191760

CIN: U67110MH1993PLC344634

In terms of Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors accepts responsibility for all the information contained in this Addendum to the Post-Buyback Public Announcement or any other information advertisement, circular, brochure, publicity material which may have been used and confirms that it contains true, factual and material informatio and does not contain any misleading information

For and on behalf of the Board of Directors of

IndiaMART InterMESH Limited Dinesh Chandra Agarwal Managing Director & CEO

DIN: 00191800

Sd/-Manoj Bhargava Group General Counsel. Secretary and Compliance Officer

Membership No.: F 5164

Place : New Delhi Date: September 20, 2023